



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052024-254465
CG-DL-E-31052024-254465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2024/ज्येष्ठ 10, 1946

No. 277]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2024/JYAISHTHA 10, 1946

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2024

सा.का.नि. 298(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, अपर बजट अधिकारी भर्ती नियम, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में अपर बजट अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, अपर बजट अधिकारी भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2)से (4)में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

3. भर्ती की रीति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की रीति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर बजट अधिकारी	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800 – 209200 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, क्या भर्ती सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई है तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा 100% , ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के मामले में, वो ग्रेड जिसमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वो स्थितियां जिनमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: उप-निदेशक (बजट एवं लेखा) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अपेक्षित नहीं है।

<p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी: -</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन वेतन-मैट्रिक्स स्तर 11 या समतुल्य पद पर (67700-208700 रुपए) नियुक्ति के पश्चात पद पर नियमित रूप से पाँच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) द्वारा संचालित रोकड़ एवं लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और बजट कार्य एवं लेखा प्रक्रिया एवं पद्धतियों में पाँच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो;</p> <p>अथवा केंद्रीय सरकार के अधीन किसी भी केंद्रीय संगठित लेखा सेवा के अधिकारी:</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार से सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स स्तर 11 या समतुल्य पद पर (67700-208700 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>टिप्पण 2: फीडर वर्ग के वो विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण 3: जहाँ ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अहर्क या पात्र सेवा पूर्ण कर ली है और उन्हें प्रोन्नत किए जाने पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा, परंतु कि उन्होंने ऐसी अहर्क या पात्र सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, की अपेक्षित अहर्क या पात्र सेवा पूर्ण कर ली है तथा अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने पहले से ही ऐसी अहर्क या पात्र सेवा पूर्ण कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।</p>	<p>2. अपर सचिव / संयुक्त सचिव (प्रशासन) या समकक्ष, आर्थिक कार्य विभाग (सदस्य)</p> <p>3. अपर सचिव / संयुक्त सचिव (बजट) या समकक्ष, आर्थिक कार्य विभाग (सदस्य)</p>	
---	---	--

[फा.सं. ए.12011/2/2019-प्रशा.क(भाग)]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2024

G.S.R. 298(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Additional Budget Officer Recruitment Rules, 2020, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Budget Officer in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Additional Budget Officer Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Budget Officer.	1* (2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800 - 209200)	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	100% by promotion failing which deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director (Budget and Accounts) in Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with Five years regular service in the grade. Deputation: Officers of the Central Government/ State Government or Union Territories: - (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service rendered after	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission (Chairman) 2. Additional Secretary / Joint Secretary (Admin) or equivalent, Department of Economic Affairs (Member)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

<p>appointment to the post on a regular basis in Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Who have undergone training in cash and accounts work conducted by the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) and possessing five years' experience in budgeting and accounts procedures and practices;</p> <p>OR</p> <p>Officers from any of the central organised accounts service under the Central Government:</p> <p>(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>3. Additional Secretary / Joint Secretary (Budget) or equivalent, Department of Economic Affairs (Member)</p>	
--	--	--

[F. No. A.12011/2/2019-Ad.IA(Part)]

APARNA BHATIA, Adviser